

UP Board Class 10 Science Chapter 5 Important Questions तत्वों का आवर्त वर्गीकरण

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

सर्वप्रथम किसने तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था?

उत्तर:

सन् 1817 में जर्मन रसायनज्ञ, वुल्फगांग डॉबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया।

प्रश्न 2.

डॉबेराइनर ने किस तत्व की पहचान उत्प्रेरक के रूप में की थी?

उत्तर:

प्लैटिनम।

प्रश्न 3.

मेन्डेलीफ ने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान क्यों छोड़े थे?

उत्तर:

मेन्डेलीफ ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। उनके लिए मेन्डेलीफ ने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़े थे।

प्रश्न 4.

क्लोरीन समस्थानिकों के परमाणु भार लिखिए।

उत्तर:

Cl^{35} और Cl^{37}

प्रश्न 5.

आवर्त सारणी में आवर्त (Periods) तथा वर्ग (Group) किसे कहते हैं? ये कितने - कितने होते हैं?

उत्तर:

आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त और ऊर्ध्वाधर स्तम्भों को वर्ग कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं।

प्रश्न 6.

सोडियम क्लोरीन तथा सिलिकॉन में से कौनसी उपधातु है?

उत्तर:

सिलिकॉन।

प्रश्न 7.

न्यूलैण्ड का अष्टक नियम क्या है?

उत्तर:

न्यूलैण्ड का अष्टक नियम-जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं।

प्रश्न 8.

आधुनिक आवर्त नियम क्या है?"समझाइए।

उत्तर:

आधुनिक आवर्त नियम - मोज्ले के अनुसार, "तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं।"

प्रश्न 9.

मेण्डेलीफ का आवर्त नियम लिखिए।

उत्तर:

मेण्डेलीफ के अनुसार, "तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं।" इसे ही मेण्डेलीफ का आवर्त नियम कहते हैं।

प्रश्न 10.

किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र से ज्ञात की जाती है?

उत्तर:

किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या = $2n^2$ सूत्र से ज्ञात की जाती है। (n = कोश की संख्या)

प्रश्न 11.

तीसरे आवर्त में स्थित तत्वों में धातु कौनसे हैं?

उत्तर:

तीसरे आवर्त में Na, Mg, Al धातु हैं।

प्रश्न 12.

आवर्त सारणी के तीसरे समूह में एक तत्व Y है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा?

उत्तर:

तत्व तीसरे समूह का है अतः इसकी संयोजकता 3 है तथा ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। अतः ऑक्साइड का सूत्र Y_2O_3 होगा।

प्रश्न 13.

किसी समूह में उपस्थित तत्वों की संयोजकता क्या होगी?

उत्तर:

किसी समूह के तत्वों की संयोजकता = समूह की संख्या या 8 - समूह की संख्या ।

प्रश्न 14.

क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से किसकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन के प्रति न्यूनतम है?

उत्तर:

हेलोजन वर्ग में F_2 से I_2 तक क्रियाशीलता कम होती है। अतः हाइड्रोजन के प्रति आयोडीन की क्रियाशीलता न्यूनतम है।

प्रश्न 15.

समूह 1 के तत्वों का नाम क्या है?

उत्तर:

समूह एक के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं ।

प्रश्न 16.

तीसरे आवर्त में तत्वों के ऑक्साइडों के क्षारीय गुण में क्या परिवर्तन होता है?

उत्तर:

तीसरे आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर तत्वों के ऑक्साइडों का क्षारीय गुण कम होता है।

प्रश्न 17.

डॉबेराइन्डर के त्रिक का एक उदाहरण लिखिए।

उत्तर:

Cl, Br तथा I डॉबेराइन्डर के त्रिक का उदाहरण है।

प्रश्न 18.

आवर्त में तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। क्यों?

उत्तर:

आवर्त में जैसे-जैसे बाईं से दाईं ओर जाते हैं संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है।

प्रश्न 19.

धातु, विद्युत धनात्मक होते हैं, क्यों?

उत्तर:

आबंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है अतः ये विद्युत धनात्मक होते हैं।

प्रश्न 20.

किसी समूह के कौनसे भाग में तत्वों में धात्विक गुण अधिक होगा तथा परमाणु आकार अधिक होगा?

उत्तर:

किसी समूह के नीचे की तरफ स्थित तत्वों में धात्विक गुण अधिक होगा तथा परमाणु आकार भी अधिक होगा।

प्रश्न 21.

आवर्त सारणी में आवर्त किसे कहते हैं तथा परमाणु क्रमांक में परिवर्तन से परमाणु की संरचना किस प्रकार बदलती है?

उत्तर:

आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं | परमाणु क्रमांक में परिवर्तन से इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या में परिवर्तन होता है। अतः परमाणु की संरचना में परिवर्तन होता है।

प्रश्न 22.

आज तक हमें कितने तत्वों की जानकारी है?

उत्तर:

118 तत्व।

प्रश्न 23.

न्यूलैण्ड्स की कल्पना के अनुसार, प्रकृति में कुल तत्वों की संख्या कितनी थी?

उत्तर:

न्यूलैण्ड्स की कल्पना के अनुसार प्रकृति में कुल तत्वों की संख्या 56 थी।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

न्यूलैण्ड्स के अष्टक सिद्धान्त को लिखिए। निम्नलिखित से समान गुणधर्म रखने वाले तत्व का नाम लिखिए

(अ) नाइट्रोजन

(ब) लिथियम।

उत्तर:

न्यूलैण्ड्स का अष्टक सिद्धान्त-न्यूलैण्ड्स ने सन् 1866 में ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा (हाइड्रोजन से थोरियम तक)। उन्होंने देखा कि प्रत्येक आठवें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए इसे 'न्यूलैण्ड्स का अष्टक सिद्धान्त' कहा जाता है। न्यूलैण्ड्स के अष्टक सिद्धान्त के अनुसार नाइट्रोजन के समान गुणधर्म वाला तत्व फॉस्फोरस तथा लिथियम के समान तत्व सोडियम है।

प्रश्न 2.

आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बायें से दायें जाने पर निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है?

(i) परमाणु आकार

(ii) धात्विक गुण

(iii) संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या।

उत्तर:

(i) परमाणु आकार-आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर अधिक आकर्षित करता है जिससे परमाणु का आकार घटता जाता है।

(ii) धात्विक गुण-आवर्त में जैसे-जैसे संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, अतः धात्विक गुण कम होते जाते हैं।

(iii) संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या-आवर्त में बायें से दायें जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में पहले वृद्धि व बाद में कमी आती है।

प्रश्न 3.

डॉबेराइनर के त्रिक क्या हैं? उदाहरण सहित बताइए।

उत्तर:

वर्ष 1817 में डॉबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने तीन-तीन तत्व वाले कुछ समूहों को चुना एवं इन समूहों को त्रिक कहा। डॉबेराइनर के अनुसार त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। उदाहरण के लिए, लीथियम (Li), सोडियम (Na) एवं पोटैशियम (K) का त्रिक

जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 6.9, 23.0 तथा 39.0 हैं।

अन्य उदाहरण: Ca (40.1)

Cl(35.5)

Sr (87.6)

Br (79.9)

Ba(137.3)

I(126.9)

प्रश्न 4.

मेन्डेलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया तथा उनके द्वारा तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? समझाइए।

उत्तर:

मेन्डेलीफ के समय 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। रासायनिक गुणधर्मों के अन्तर्गत मेन्डेलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान दिया क्योंकि ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन अत्यन्त सक्रिय तत्व हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया।

फिर उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग किया तथा उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा अपने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में वे तत्व व्यवस्थित हो गए। उन्होंने देखा कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेन्डेलीफ ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धान्त है-तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। इसे मेन्डेलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। मेन्डेलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तम्भ को 'ग्रुप' (समूह) तथा क्षैतिज पंक्तियों को 'पीरियड' (आवर्त) कहते हैं।

प्रश्न 5.

मेन्डेलीफ ने उस समय तक अज्ञात तत्वों का नामकरण किस प्रकार किया? उदाहरण देकर समझाइए।

उत्तर:

मेन्डेलीफ ने कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में 'एका' (संस्कृत शब्द) उपसर्ग लगाकर किया। जैसे एका-बोरॉन, एका-ऐलुमिनियम तथा एका-सिलिकॉन जो बाद में स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के रूप में ज्ञात हुए।

प्रश्न 6.

आधुनिक आवर्त नियम क्या है तथा आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई गई? समझाइए।

उत्तर:

आधुनिक आवर्त नियम-"तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं।" हेनरी मोज्ले द्वारा प्रस्तुत आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर है जो कि अधिक आधारभूत गुण है। परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटोनों की संख्या ज्ञात होती है तथा एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की वृद्धि होती है। तत्वों को उनकी परमाणु-संख्या (Z) के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तत्वों को परमाणु-संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्मों का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगा सकते हैं।

प्रश्न 7.

- (a) परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व की संयोजकता कितनी है तथा यह किस प्रकार ज्ञात की जाती है?
(b) ब्रोमीन तथा आयोडीन को एक ही समूह में रखा गया है।

उत्तर:

(a) तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है अतः इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन तथा परमाणु में 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। अतः इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है अर्थात् इसके संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं अतः इसे अपना कोश पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः इसकी संयोजकता - 1 होगी।

तत्व की संयोजकता = संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या

या

तत्व की संयोजकता = 8-संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या

(b) ब्रोमीन तथा आयोडीन को एक ही समूह में रखा गया है क्योंकि दोनों ही तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं तथा दोनों ही - 1 संयोजकता दर्शाते हैं।

प्रश्न 8.

- (a) आधुनिक आवर्त सारणी में कोबाल्ट (Co) तथा Ni (निकल) के स्थान कैसे निर्धारित किए गए हैं?
(b) (i) आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में उपस्थित तत्वों के नाम बताइए।
(ii) समूह 1 के पहले तीन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए।
(iii) इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है?
(iv) इन तीनों तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं?

उत्तर:

(a) कोबाल्ट (Co) का परमाणु क्रमांक 27 एक निकल (Ni) का परमाणु क्रमांक 28 है। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा जाता है। अतः कम परमाणु क्रमांक वाला तत्व कोबाल्ट पहले तथा अधिक परमाणु क्रमांक वाला तत्व निकल बाद में आयेगा।

(b) (i) आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में उपस्थित तत्व

हाइड्रोजन (H),

लीथियम (Li),

सोडियम (Na),

पोटैशियम (K),

रूबीडियम (Rb),

सीजियम (Cs)

तथा फ्रांसियम (Fr) हैं।

(ii) प्रथम तीन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास

हाइड्रोजन (H) = 1

लीथियम (Li) = 2, 1

सोडियम (Na) = 2, 8, 1

(iii) इन सबके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान (प्रत्येक में 1) है। अतः इनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान है।

(iv) इन सभी तत्वों में एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन है।

प्रश्न 9.

(i) आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में Li, Be, B, C, N, O, F तथा Ne दूसरे आवर्त के तत्व हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए।

(ii) क्या इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है?

(iii) क्या इनके कोशों की संख्या समान है?

उत्तर:

(i)

तत्व	परमाणु क्रमांक	इलेक्ट्रॉनिक विन्यास	
		K	L
Li	3	2	1
Be	4	2	2
B	5	2	3
C	6	2	4
N	7	2	5
O	8	2	6
F	9	2	7
Ne	10	2	8

(ii) नहीं, इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न-भिन्न है।

(iii) हाँ, इन सभी तत्वों में कोशों की संख्या समान है।

प्रश्न 10.

(i) संयोजकता किसे कहते हैं?

(ii) किसी तत्व की संयोजकता कैसे ज्ञात की जाती है तथा समूह एवं आवर्त में संयोजकता में क्या परिवर्तन होता है?

उत्तर:

(i) संयोजकता किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों

की संख्या से निर्धारित की जाती है।

(ii) संयोजकता का निर्धारण: तत्वों की संयोजकता का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है

1. यदि तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 या 4 है, तो उनकी संयोजकताएँ क्रमशः 1, 2, 3 तथा 4 होंगी।
2. यदि तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6 या 7 है तो उन तत्वों की संयोजकताएँ क्रमशः 3, 2, 1 होंगी।
3. यदि तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो उन तत्वों की संयोजकता शून्य (0) होगी। समूह में सभी तत्वों की संयोजकताएँ समान होती हैं परन्तु आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 1 तक घटकर उत्कृष्ट गैस की स्थिति में शून्य हो जाती है।

तत्व	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
संयोजकता	1	2	3	4	3	2	1	0

प्रश्न 11.

आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी-मेढ़ी रेखा क्यों खींची गई है?

उत्तर:

आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी-मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व-बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ऐंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गणुंधर्म प्रदर्शित करते हैं।

प्रश्न 12.

(i) प्रथम समूह के तत्वों की परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन का अध्ययन कीजिए तथा उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

प्रथम समूह के तत्व	Na	Li	Rb	Cs	K
परमाणु त्रिज्या (pm)	186	152	244	262	231

(ii) किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा तथा किसका सबसे बड़ा है?

(iii) समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में कैसा परिवर्तन होगा?

उत्तर:

(i) प्रथम समूह के तत्वों की परमाणु त्रिज्या का आरोही क्रम निम्न प्रकार होगा-

$Li < Na < K < Rb < Cs$

(ii) Li का परमाणु सबसे छोटा तथा Cs का परमाणु सबसे बड़ा है।

(iii) समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में वृद्धि हो रही है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोश जुड़ जाता

है, इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोश के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का आकार बढ़ जाता है।

प्रश्न 13.

(i) दूसरे आवर्त के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएँ नीचे दी गई हैं

दूसरे आवर्त के तत्व	B	Be	O	N	Li	C
परमाणु त्रिज्या (pm)	88	111	66	74	152	77

इन्हें परमाणु त्रिज्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

(ii) क्या ये तत्व अब आवर्त सारणी के आवर्त की तरह ही व्यवस्थित हैं?

(iii) किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा है एवं किसका सबसे छोटा है?

(iv) आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या किस प्रकार बदलती है?

उत्तः

(i) दूसरे आवर्त के तत्वों की परमाणु त्रिज्या का अवरोही (घटता) क्रम निम्न है-

Li > Be > B > C > N > O

(ii) हाँ, अब ये तत्व आवर्त सारणी के आवर्त की तरह ही व्यवस्थित हैं।

(iii) Li का परमाणु सबसे बड़ा तथा O (ऑक्सीजन) का परमाणु सबसे छोटा है।

(iv) आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होती है।

प्रश्न 14.

(क) आवर्त सारणी के आधार पर तत्वों के गुणों में आवर्तिता का क्या अर्थ है?

(ख) एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2 है।

(i) इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है?

(ii) निम्न में किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? (परमाणु संख्या कोष्ठक में दी गई है) Na (11), O (8), Mg (12), Ne (10), F (9)

उत्तरः

(क) जब तत्वों को उनके परमाणु संख्या के वृद्धि क्रम में रखा जाता है तो भौतिक एवं रासायनिक गुणों में एक प्रकार की आवर्तिता पाई जाती है अर्थात् एक तत्व से दूसरे तत्व के गुणों में एक क्रमबद्ध परिवर्तन होता है तथा निश्चित अवधि के पश्चात् उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति को व्यक्त करने की घटना को आवर्तिता कहते हैं।

(ख)

(i) तत्व की परमाणु संख्या = इलेक्ट्रॉनों की संख्या = 2 + 8 + 8 + 2 = 20

(ii) इस तत्व की रासायनिक समानता Mg (12) से होगी क्योंकि Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है।

प्रश्न 15.

(अ) इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 वाला एक तत्व X है। बताइए(क) इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है?

(ख) इसकी आवर्त संख्या क्या है?

(ग) यह तत्व आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है?

(ब) तत्व में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं?

उत्तर:

(अ) (क) तत्व की परमाणु संख्या 17 है।

(ख) तत्व की आवर्त संख्या भी 17 है।

(ग) यह तत्व आवर्त सारणी के समूह VII-A का तत्व है।

(ब) तत्व में सात संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं।

प्रश्न 16.

दो तत्व X तथा Y जिनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 11 व 17 हैं

(क) ये तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में हैं?

(ख) इन तत्वों में से कौनसी धातु तथा कौनसी अधातु है?

(ग) ये तत्व आवर्त सारणी में किस आवर्त में हैं?

उत्तर:

(क) X तत्व IA वर्ग में एवं Y तत्व VIIA वर्ग में आता है।

(ख) तत्व X धातु तथा तत्व Y अधातु है।

(ग) दोनों तत्व आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में हैं।

प्रश्न 17.

(क) उन तत्वों के नाम बताइए जो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में हैं और उनका धातु व अधातु में वर्गीकरण कीजिए।

(ख) आवर्त सारणी के किस ओर आप धातुओं को पाते हैं?

उत्तर:

(क) आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में Na, Mg, Al, Si, P, S तथा Cl तत्व आते हैं। इन तत्वों में से Na, Mg तथा Al धातु तत्व हैं तथा P, S तथा Cl अधातु तत्व हैं जबकि Si अर्द्धधातु/उपधातु तत्व है।

(ख) आवर्त सारणी में बाईं ओर (प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय समूह) के तत्व धातु तत्व हैं।